

## फैक्ट्री से तीन हजार लीटर नकली शराब पकड़ी

Publish Date: | Mon, 30 Nov 2020 12:19 AM (IST)



आलीराजपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। क्षेत्र अवैध शराब का गढ़ बन गया है। अवैध रूप से शराब के परिवहन के साथ ही फैक्ट्री तक का संचालन क्षेत्र में कि या जा रहा है। ऐसी ही एक शराब की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। मौके पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब पाई गई तथा शराब बनाने की सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिट्टू सहग

आलीराजपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। क्षेत्र अवैध शराब का गढ़ बन गया है। अवैध रूप से शराब के परिवहन के साथ ही फैक्ट्री तक का संचालन क्षेत्र में कि या जा रहा है। ऐसी ही एक शराब की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। मौके पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब पाई गई तथा शराब बनाने की सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिट्टू सहगल ने बताया कि थाना आंबुआ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बड़ा ईटारा तड़वी फलिया में पुरानी पंचायत भवन में अवैध शराब की फैक्ट्री और अवैध शराब की पेटियां होने की मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस टीम द्वारा शनिवार की दरमियानी रात उक्त स्थान की तस्दीक की गई तो वहां पर 325 पेटियां मिली। इस पर राँयल बार व्हिस्की का लेबल लगा हुआ था तथा सभी सीलबंद थीं। इसके अलावा नकली शराब बनाने की अन्य सामग्री भी जब्त की गई। थाना आंबुआ में आबकारी एक्ट का अज्ञात आरोपित के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को अनुसंधान में लिया है।

कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे सवाल

दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार रात 12.30 बजे कार्रवाई की गई लेकिन सूत्रों से खबर करीब 11.35 मिनट पर छापा मारा गया। इतने बड़े कारखाने में कि सी भी व्यक्ति का मौके पर ना होना और दूसरे देर शाम तक भी मामले में कि सी की गिरफ्तारी नहीं होना संदेह पैदा करता है। इतना ही नहीं, पुराने पंचायत भवन में नकली शराब की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिससे पंचायत विभाग के लोगों पर भी शक की सुई है। आंबुआ पुलिस की तरफ से मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/alirajpur-tyeht-svwh-6590733>